


Constable GD in CAPFs NIA SSF and Rifleman GD in Assam Rifles Examination 2021

Roll Number	
Candidate Name	
Venue Name	iON Digital Zone iDZ Laxman Nagar
Exam Date	01/12/2021
Exam Time :	4:00 PM - 5:30 PM
Subject	Constable GD 2021

Section : **Part A General Intelligence and Reasoning**

Q.1 दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में, निम्न में से कौन सा अक्षर-युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा?



- Ans**
- 1. D और F
 - 2. B और E
 - 3. F और E
 - 4. C और F

Question ID : **65497830005**
Status : **Answered**
Chosen Option : 1

Q.2 उस सही विकल्प का चयन कीजिए, जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं।

1. Naughty
2. Navy
3. Navigate
4. Nautical
5. Nuptial

- Ans**
- 1. 1, 4, 3, 5, 2
 - 2. 1, 3, 4, 2, 5
 - 3. 3, 2, 1, 4, 5
 - 4. 1, 4, 3, 2, 5

Question ID : **65497830007**
Status : **Answered**
Chosen Option : 4

Q.3 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'CAMEL' को 'ECNGN' और 'HORSE' को 'JQSUG' के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 'WHALE' को किस रूप में लिखा जाएगा?

- Ans**
- 1. XIBMF
 - 2. YJBNG
 - 3. YJCNG
 - 4. XJBNF

Question ID : **65497829990**
Status : **Answered**
Chosen Option : 2

Q.4 शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए, जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है।



- Ans
- 1. इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित
 - 2. किसान, ग्रामीण, साक्षर
 - 3. डॉक्टर, नर्स, इंसान
 - 4. महिलाएं, माताएं, पुत्रियां

Question ID : 65497830014
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.5 अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए, जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी।

V _ M R _ V _ M _ D _ K M _ D

- Ans
- 1. KDKRDR
 - 2. KDKRVR
 - 3. KDRRVR
 - 4. KDKRVK

Question ID : 65497830008
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.6 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है।

18 : 26 :: 20 : ? :: 16 : 23

- Ans
- 1. 41
 - 2. 31
 - 3. 38
 - 4. 29

Question ID : 65497830003
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.7 A, D का पिता है। C और D भाई हैं। G, B की माँ है और C, B का भाई है। G, A से किस प्रकार संबंधित है?

- Ans
- 1. भाभी
 - 2. बहन
 - 3. सास
 - 4. पत्नी

Question ID : 65497829997
Status : Answered
Chosen Option : 4



Q.8 दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए, जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर आ सकती है।

19, 19, 38, 114, ?, 2280

- Ans 1. 1140
 2. 456
 3. 224
 4. 344

Question ID : 65497830009
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MISTAKE' को '9765412' के रूप में और 'NAKED' को '84123' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में, 'INTIMATE' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?

- Ans 1. 89786145
 2. 78579452
 3. 78698365
 4. 79438163

Question ID : 65497829999
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:

सभी स्कूटर दो पहिया वाहन हैं।
सभी साइकिल दो पहिया वाहन हैं।

निष्कर्ष:

- I. सभी स्कूटर साइकिल हैं।
II. सभी साइकिल स्कूटर हैं।

- Ans 1. ना तो निष्कर्ष I। ना निष्कर्ष II। अनुसरण करता है।
 2. केवल निष्कर्ष II। अनुसरण करता है।
 3. निष्कर्ष I। और II। दोनों अनुसरण करते हैं।
 4. केवल निष्कर्ष I। अनुसरण करता है।

Question ID : 65497829991
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.11 'केंचुए' का 'अरज्जूकी' से वही संबंध है, जो 'मछली' का '_____' से है।

- Ans 1. रज्जूकी
 2. अरज्जूकी
 3. सरीसृप
 4. स्तनधारी

Question ID : 65497830012
Status : Answered
Chosen Option : 3



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, IMPORT को GKRQPR लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में EXPEND को क्या लिखा जाएगा?

- Ans 1. GCFLMF
 2. CVNGLR
 3. DYQFMB
 4. CVRGLB

Question ID : 65497829996
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.13 छः डिलीवरी बॉय U, V, W, X, Y और Z एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। Z, W के बाएं ठीक बगल में है। पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं। W, Z और V के बीच में है। U, X के बाएं ठीक बगल में है। Y, X के दाएं ठीक बगल में है। निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है?

- Ans 1. U
 2. V
 3. X
 4. W

Question ID : 65497830002
Status : Answered
Chosen Option : 2


Q.14 दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।

2, 3, 10, 39, 172, ?, 5346

- Ans 1. 693
 2. 885
 3. 756
 4. 743

Question ID : 65497830000
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.15 नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा?



Ans

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Question ID : 65497829994
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.16 चार अक्षर-समूह दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, जबकि उनमें से कोई एक असंगत है। उस असंगत अक्षर-समूह का चयन कीजिए।

- Ans 1. MJQ
 2. EBI
 3. GDK
 4. RNU

Question ID : 65497829998
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.17 दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर-समूह का चयन करें, जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर आ सकता है।

TOD, UQG, VSJ, WUM, XWP, ?

- Ans 1. YYT
 2. YAS
 3. YZS
 4. YYS

Question ID : 65497830011
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.18 चार संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी विशेष नियम के अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए।

- Ans 1. (13, 26, 169)
 2. (17, 34, 278)
 3. (15, 30, 225)
 4. (12, 24, 144)

Question ID : 65497829992
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.19 किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है। 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले तीन कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं और 42, 46 और 44 वर्ष की आयु वाले तीन नये कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं। अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी?

- Ans 1. 47 वर्ष
 2. 45 वर्ष
 3. 48 वर्ष
 4. 46 वर्ष

Question ID : 65497829993
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.20 यदि 'A' का अर्थ 'जोड़' है, 'B' का अर्थ 'गुणा' है, 'C' का अर्थ 'घटाना' है, और 'D' का अर्थ 'भाग' है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा?

72 D 6 B 12 A 24 C 18 C (20 B 5 A 48)

- Ans 1. 3
 2. 2
 3. 4
 4. 1


Question ID : 65497830004
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.21 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सम्मिहित है। (आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है)




Ans


✗ 1.




✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Question ID : 65497830006

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.22 यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए, तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए।

POLYNOMIAL $\left\{ \begin{array}{l} P \\ Q \end{array} \right.$

Ans

✗ 1. LAIOMYLOP

✗ 2. POLYMOIAT

✗ 3. POLYMOIAT


✓ 4. LAIOMYLOP

Question ID : 65497830001

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.23 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए, जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर आ सकती है।




Ans


1.




2.



3.



4.



Question ID : 65497830010

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.24 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है।

BULK : YFOP :: NOTE : ?

Ans

1. OWQS

2. PQCH

3. MLGV

4. HWRP

Question ID : 65497829995

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.25 चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लोहित, फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग, जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans

1. चिराग

2. जॉय

3. लोहित

4. हीरा

Question ID : 65497830013

Status : Answered

Chosen Option : 1

Section : Part B General Knowledge and General Awareness



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)